

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 319]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 28, 1973/पौष 7, 1895

No. 319]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 28, 1973/PAUSAA 7, 1895

इस भाग में भिन्न-भिन्न संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi the 28th December, 1973

SUBJECT.—Import Policy for the year April 1973—March 1974.

No. 225-ITC(PN)/73.—Attention of importers is invited to import policy as contained in the Import Trade Control Policy (Red Book—Vol. I) for the period April 1973—March 1974.

2. The following amendments shall be made at appropriate places in the Import Trade Control Policy (Red Book—Vol. I) for the period April 1973—March 1974 :—

Page No. of the Red Book (Vol. I)	Reference	Details of amendments
1	2	3
49	Section II, S. Nos. 127—129/IV, Column 4, Remarks (1) and (2).	(1) The existing remark (1) may be deemed to have been substituted by the following remark :— “(1) A.U. for import of natural essential oils other than those mentioned below for manufacture of aromatic chemicals, perfumery compounds and synthetic essential oils.”

1

2

3

- (2) The following end-product appearing in line 3 of remark (2) may be deemed to have been deleted :—
“Synthetic essential oils”
- 97 Section IV. S. No. 93-94(i)/V, Column 4, Remark (3), Item No. (i). For the existing percentage “2½%”
Read “5%”
- 120 Section V, Annexure to Appendix 7. (1) For the entry ‘[vide remark 2(i) in Section IV against S. No. 93-94(i)/V]’ appearing in the heading,
Read ‘[vide remark 3(i) in Section IV against S. No. 93-94(i)/V]’
(2) The following item may be deemed to have been inserted as S. No. 1-A :—
“1-A. Acme fluoride.”
- 193 Section V, Appendix 24, Part ‘A’, S. No. I-Acid Dyes-(A). The following acid dyes may be deemed to have been inserted as S. Nos. 7-A, 62-A and 70:—
- | | Hue | C.I. | No. | No. | |
|------------------------|-----|-------|-----|-----|--|
| 7-A. Acid Orange | 19 | 14690 | | | } Import of these individual items will be allowed upto 10% of the face value of the licences for coal-tar dyes. |
| 62-A. Acid Blue. | 211 | — | | | |
| 70. Acid Turquoise R/. | — | | | | |
- 196 Section V, Appendix 24, Part ‘A’. The following entry may be deemed to have been inserted above the existing ‘Note’ :—
“XIV. Padazoic colours. Import of this item will be allowed upto 10% of the face value of the licences for coal-tar dyes.”
- 341 Section V, Appendix 74, S. Nos. 127—129/IV, Item No. (i), Columns 2 and 3. (1) The following end-product appearing in the description under column 2 may be deemed to have been deleted :—
“synthetic essential oils.”
(2) The existing entry in column 3 may be deemed to have been substituted by the following :—
“25% of the face value of the licence.”
- 342 Section V, Appendix 74, S. Nos. 34—37(i)/V, Column 3. The existing entry may be deemed to have been substituted by the following :—
“10% of the face value of the licence.”

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 1973

विषय:—अप्रैल, 1973—मार्च, 1974 वर्ष के लिए आयात नीति ।

सं० 225/आई०टी०सी० (पी० एन०)/.73.—आयातकों का ध्यान अप्रैल, 1973—मार्च, 1974 अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति रेड बुक वा० 1 में यथा निहित आयात नीति की ओर आकृष्ट किया जाता है ।

2. निम्नलिखित संशोधन अप्रैल, 1973—मार्च, 1974 अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेड बुक—वा-1) में उपयुक्त स्थानों पर किए जाएंगे:—

रेड बुक (वा० 1) की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधनों के ध्येरे
1	2	3
49	खंड-2, क्रम संख्या 127-129/4, कालम 4, टिप्पणियां (1) तथा (2) ।	1. वर्तमान टिप्पणी (1) निम्नलिखित टिप्पणी द्वारा प्रतिस्थापित की गई समझी जाए :— “(1) सुगंधित रसायनों, सुगंधित मिश्रण तथा सिन्थेटिक सुगन्ध तेल के निर्माण के लिए नीचे लिखे गए बालों के अलावा प्राकृतिक सुगन्ध तेल के आयात के लिए वास्तविक उपयुक्तता ।” (2) टिप्पणी (2) की पक्ति 3 में आने वाले निम्न-लिखित अन्तिम उत्पाद को हटाया गया समझा जाए :— “सिन्थेटिक सुगन्ध तेल”
97	खंड 4, क्रम संख्या 93-94(जे)/5, कालम 4, टिप्पणी (3), मद संख्या (1) ।	वर्तमान प्रतिशतता “2. 1/2 प्रतिशत” के लिए “5 प्रतिशत” पढ़ें :
120	खंड 5, परिशिष्ट 7 के लिए अनु-बन्ध ।	(1) शीर्षक में दिखाई गई प्रविष्टि “[क्रम संख्या 93-94 (जे)/5 के सामने खंड 4 में टिप्पणी 2(1) देखें]” के लिए

1

2

3

“[क्रम संख्या 93-94 (जे)/5 के सामने खंड 4 में टिप्पणी 3(1) देखें]” पढ़ें।

(2) निम्नलिखित मद क्रम संख्या 1-ए के रूप में शामिल की गई समझी जाए :-

“1-ए एकमी फ्लूरायड”

193 खंड 5, परिशिष्ट 24, भाग 'ए', निम्नलिखित एसिड रंग क्रम संख्याएं 7-ए, 62-ए क्रम संख्या 1—एसिड रंग-(ए)। तथा 70 के रूप में शामिल की गई समझी जाए :-

रंग सं० सी०आई०सं०

7-ए. एसिड केशरी	19 14690	} इन अलग अलग मदों के आयात की स्वीकृति कोल तार रंगों के लिए लाइसेंस के अंकित मूल्य के 10 प्रतिशत तक के लिए दी जाएगी।
62-ए. एसिड नीला	211 -	
70. एसिड फिरोजी पार०	- -	

196 खंड 5, परिशिष्ट 24 भाग 'ए' निम्नलिखित प्रविष्टि वर्तमान 'नोट' के ऊपर जोड़ी गई समझी जाए:-

“14. पेडेजाइक रंग.- इस मद के आयात की स्वीकृति कोलतार रंगों के लिए लाइसेंसों के अंकित मूल्य के 10 प्रतिशत तक के लिए दी जाएगी।”

341 खंड 5, परिशिष्ट 74, क्रम संख्याएं (1) कालम 2 के अन्तर्गत विवरण में दिखाए गए 127-129/4, मद सं० (1), निम्नलिखित अन्तिम उत्पाद को हटाया गया कालम 2 तथा 3। समझा जाए :-

“सिन्थेटिक सुगन्ध तेल”

(2) कालम 3 में वर्तमान प्रविष्टि को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए :-

“लाइसेंस के अंकित मूल्य का 25 प्रतिशत”

342 खंड 5, परिशिष्ट 74, क्रम संख्या 34-37(जे)/5, कालम 3। वर्तमान प्रविष्टि को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए :-

“लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत”

SUBJECT :- Import policy for the period April, 1973—March, 1974.

NO. 226-ITC(PN)/73.—Attention is invited to Appendix 71 of the Import Trade Control Policy (Red Book—Vol. I) for the period April, 1973—March, 1974 containing the list of industries referred to in para 39(b) of Section I and Appendix 65 of the Import Trade Control Policy (Red Book—Vol. I) for the period April, 1973—March, 1974.

2. It has been decided to make the following changes in the list of industries given in Appendix 71 of the Import Trade Control Policy (Red Book—Vol. I) for the period April, 1973—March, 1974 :—

(i) The following industries may be deemed to have been inserted as S. Nos. 12 and 13 :—
 “12. Fire works. 13. Formulated perfumery compounds.”

(ii) The undermentioned industries may be deemed to have been deleted :—

“46. Steel Furniture. 48. Mechanical Toys.
 49. Aluminium Utensils. 50. Fountain Pens and Ball Point Pens.”

(iii) The following industry may be deemed to have been inserted below the industry ‘Domestic Utensils (other than stainless steel)’ :—

“Steel Measuring tape.”

(iv) The existing S. Nos. of the industries may be renumbered accordingly.

S. G. BOSE MULLICK,
 CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS AND EXPORTS.

विवरण :—अप्रैल, 1973-मार्च, 1974 अवधि के लिए आयात नीति ।

सं० 226/आई०टी०सी० (पी० एन०)/73.—अप्रैल, 1973-मार्च, 1974 अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेड बुक-वा०-1) के परिशिष्ट 71 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिस में अप्रैल, 1973-मार्च, 1974 अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेड बुक वा०-1) के खंड 1 की कंडिका 39(बी) तथा परिशिष्ट 65 में संदिग्ध उद्योगों की एक सूची है ।

2. यह निश्चय किया गया है कि अप्रैल के 1973-मार्च, 1974 अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेड बुक-वा०-1) के परिशिष्ट 71 में दिए गए उद्योगों की सूची में निम्नलिखित संशोधन किए जाएं :—

(1) निम्नलिखित उद्योगों की क्रम संख्या 12 तथा 13 के रूप में शामिल किया गया समझा जाए :—

“12. आतिशबाजी
 13. सूत्रित सुगंध मिश्रण”

(2) नीचे दिए गए उद्योग हटाए गए समझे जाएं :—

“46 इस्पात फर्निचर
 48 तकनीकी खिलौने
 49 ऐल्युमीनियम के बरतन
 50 फाउण्टेनपेन तथा बाल प्वाइंट पेन”

(3) निम्नलिखित उद्योग को “घरेलू बरतन (जंगरी स्पात से भिन्न)” उद्योग के अन्तर्गत शामिल किया गया समझा जाए :—

“इस्पात के मापन टेप”

(4) तदनुसार उद्योगों की वर्तमान क्रम संख्याओं को पुनः सांख्यांकित किया जाए ।

एस०जी०बोस मल्लिक,
 मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

